

## ब्रांडेड कंपनी के नाम पर रोहतक में बिक रही नकली चाय पत्ती, नमक, साबुन और मसाले, रेड में खुलासा

रोहतक में डिटेक्टिव कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। जिसमें भारी संख्या में कई ब्रांडेड कंपनियों का नकली सामान बरामद किया गया। पुलिस ने दिल्ली निवासी आरोपित को गिरफ्तार कर सामान को अपने कब्जे में ले लिया।

Sun, 21 Nov 2021 11:45 AM (IST)



जागरण संवाददाता, रोहतक : यदि आप भी ब्रांडेड कंपनी की चाय पत्ती, नमक, साबुन और मसाले खरीद रहे हैं तो सचेत हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रांडेड कंपनी के नाम पर आपको नकली सामान थमा दिया जाए। शनिवार रात एक डिटेक्टिव कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। जिसमें भारी संख्या में कई ब्रांडेड कंपनियों का नकली सामान बरामद किया गया। पुलिस ने दिल्ली निवासी आरोपित को गिरफ्तार कर सामान को अपने कब्जे में ले लिया।

आइपी इंवेटीगेशन एंड डिटेक्टिव प्राइवेट कंपनी के फिल्ड आफिसर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी कंपनी टाटा और डाबर समेत अन्य कई कंपनियों के लिए काम करती है। काफी समय से सूचना मिल रही थी कि रोहतक में इन कंपनियों के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा है। इसके बाद उनकी कंपनी ने सर्वे किया। जिसमें पता चला कि नई दिल्ली के दीपक विहार निवासी राजेश कुमार रोहतक में नकली सामान सप्लाई कर रहा है। सूचना मिली कि वह शनिवार रात भी माल सप्लाई करने के लिए आएगा।

इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से सिविल लाइन थाना पुलिस को साथ लेकर मानसरोवर पार्क के नजदीक एक टाटा-एस गाड़ी को पकड़ा गया। गाड़ी चेक करने पर उसके अंदर से भारी मात्रा में नकली सामान बरामद हुआ। जो सामान बरामद हुआ उसमें टाटा की नकली चाय पत्ती, नमक, डिटोल साबून, एमडीएच मसाले, हरपिक, हेयर आयल आदि सामान था। छापेमारी की भनक लगने के बाद वह व्यक्ति नहीं आया, जिसे यह माल सप्लाई करना था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर सामान को अपने कब्जे में ले लिया है।

फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है कि वह रोहतक में किस व्यक्ति को यह नकली सामान सप्लाई करने आया था। पकड़े गए माल की कीमत करीब तीन लाख रुपये बताई जा रही है। फिल्ड आफिसर ने बताया कि रोहतक में ब्रांडेड कंपनियों के जूते और कपड़े भी मिल है। जिन पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी।

### पहले भी पकड़ा जा चुका है नकली माल

शहर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली माल पकड़े जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक ब्रांडेड कंपनी की सिलाई मशीन, गीजर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान नकली मिल चुके हैं। करीब छह माह पहले नकली बीडी भी पकड़ी गई थी। इसके अलावा भी कई बार इस तरह के मामले आ चुके हैं।

Source: <https://m.jagran.com/haryana/hisar-fake-tea-salt-soap-and-spices-sold-in-rohtak-in-name-of-branded-company-now-revealed-in-raid-22226099.html>